

राजस्थान सरकार
शिक्षा-विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 9 (स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/456 दिनांक 12 दिसम्बर,2012

समस्त प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय,

बीकानेर संभाग।

(बीकानेर जिला/चूरु जिला/श्रीगंगानगर जिला/हनुमानगढ़ जिला)

विषय :- दिनांक 20.12.2012 को प्राचार्य बैठक बाबत।

संदर्भ :- निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक एफ9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/455-
दिनांक 12 दिसम्बर,2012


महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार आयोजित बैठक में संलग्न प्रपत्र 1 (केवल निजी महाविद्यालयो हेतु) ई-मेल द्वारा संलग्न एक्सल फाइल में भरकर dce.egov@gmail.com पर प्रेषित करें एवं इस प्रपत्र -1 की हार्ड कॉपी सम्मेलन स्थल पर रजिस्ट्रेशन काउन्टर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

प्रपत्र 2 (राजकीय एवं निजी महाविद्यालय हेतु) हार्ड कॉपी में व्यक्तिशः संभागी द्वारा सम्मेलन स्थल पर रजिस्ट्रेशन काउन्टर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- प्रपत्र 1 केवल निजी महाविद्यालय

प्रपत्र 2 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय


(नवीन जैन)

निदेशक

एवं स्टेट कमिश्नर (रोवरिंग)


कालेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

क्रमांक: एफ 9 (स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/
प्रतिलिपि :-

दिनांक 12 दिसम्बर,2012

- 1 राज्य सचिव राजस्थान स्काउट एवं गाइड व गाईड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
- 2 सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयो के प्राचार्यों से अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- 3 डा0 धीरेन्द्र देवर्षि,वेबसाइट प्रभारी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश एवं प्रपत्र एक एवं दो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


राज्य समन्वयक (एन.एस.एस.)
कालेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

निजी महाविद्यालय हेतु ई गवर्नेन्स संबंधी प्रपत्र

क्र स	विषय	विवरण
1	महाविद्यालय का नाम	
2	स्थापना वर्ष एवं एन ओ सी नं०	
3	पंजीकृत संस्था का नाम	
4	संस्था के अध्यक्ष /सचिव /निदेशक का नाम	
5	महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम	
6	प्राचार्य का दूरभाष एवं मोबाइल न०.	
7	तहसील एवं उपखण्ड जहाँ महाविद्यालय स्थित है।	
8	जिले का नाम	
9	सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम	
10	यूजीसी से मान्यता का वर्ष एवं सैक्शन नं०	
11	पाठ्यक्रम (स्नातक /स्नातकोत्तर)	
12	संस्था का प्रकार (छात्र/छात्रा /सहशिक्षा)	
13	संकाय (विज्ञान/कला /वाणिज्य/विधि /अन्य)	
14	महाविद्यालय का पता	
15	महाविद्यालय की वेबसाइट के नोडल अधिकारी का नाम	
16	नोडल अधिकारी का पद	
17	नोडल अधिकारी का मोबाईल नं०	
18	महाविद्यालय की वेबसाइट एड्रेस	
19	नोडल अधिकारी की ई मेल एड्रेस	
20	महाविद्यालय की ईमेल एड्रेस	

नोट :- कृपया इस फोरमेट को न बदलें एवं केवल कालम सी में भरे ।

हस्ताक्षर	
नाम	
पद	
मोबाईल नं०	
ई मेल एड्रेस	

पंजीयन प्रपत्र

प्रपत्र-2

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्राचार्य सम्मेलन दिनांक 20.12.2012

समय.....सेतक

1	संभागी का नाम	
2	पद	
3	संस्था का नाम एवं पता	
	जिला	
4	संस्था का प्रकार (टिक करें)	सरकारी <input type="checkbox"/> निजी <input type="checkbox"/>
5	क्या मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के फार्म आपकी संस्था में भरे जा रहे हैं।	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
6	यदि बिन्दु संख्या 5 का उत्तर हाँ है, तो जमा फार्मों की संख्या	
7	क्या आपके महाविद्यालय की वेबसाइट कार्यशील है।	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
	यदि हाँ तो उसका वेब एड्रेस क्या है यथा (www.abc.in)	
8	क्या आपके महाविद्यालय में रोवरिंग (स्काउट/गाईड) आयोजित हो रही है /पंजीकृत है।	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
9	बिन्दु संख्या 8 में हाँ है तो लीडर का नाम एवं पद	
10	क्या आपका महाविद्यालय रोवरिंग में पंजीकृत होने का ईच्छुक है।	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
11	यदि बिन्दु 10 में हाँ तो रोवर / रेंजर लीडर का नाम प्रस्तावित करें	

(संभागी के हस्ताक्षर)

नाम :-

पता :-

मोबाइल नं० :-

ई मेल :-

पता :-

(संभागी सम्मेलन में इस प्रपत्र को भरकर साथ लावे एवं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जमा करवाये)